



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1934 (श10)
(सं0 पटना 565) पटना, वृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-01/2011 खंड 9655— जिला सहकारिता पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार परिशिष्ट-1 में अंकित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चुनाव कोरम के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सका है। अतएव इन प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु प्राधिकार एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए उनके निर्वाचन के निमित्त निम्न कार्यक्रम नियत करता है :-

(1)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय	30.10.2012 (मंगलवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक
(2)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	31.10.2012 (बुधवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(3)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/प्रतीक आवंटन	01.11.2012 (गुरुवार) 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक
(4)	मतदान, अगर आवश्यक हो	10.11.2012 (शनिवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक
(5)	मतगणना	10.11.2012 (शनिवार) 3:00 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निदेशों के अधीन नामांकन पत्र का अतिरिक्त सेट दाखिल किये जाने पर रोक नहीं होगा।

संबंधित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। निर्वाचन के लिए पूर्व में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.10.2012 को अतिरिक्त नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उन्हें यह भी निदेशित है कि वे समिति के सभी सदस्यों के सूचनार्थ निर्वाचन कार्यक्रम को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 565-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>